



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 पौष 1935 (श0)  
(सं0 पटना 84) पटना, शुक्रवार, 17 जनवरी 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

3 अक्टूबर 2013

**सं0 1258**—सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमण्डल के काँठो पंचायत स्थित बाबा महेश्वरनाथ मंदिर पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-4067 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था एवं सुचारु प्रबन्धन एवं सम्यक् विकास हेतु पर्षद द्वारा आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा से पत्रांक 1327 दिनांक 01.10.12 द्वारा ग्यारह स्थानीय व्यक्ति, जो प्रतिष्ठित एवं स्वच्छ छवि के हों, नामों की सूची माँग की गई थी। पत्रांक 247/स्था0 दिनांक 29.01.2013 द्वारा आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा ने न्यास समिति के गठन हेतु सदस्यों के नामों की अनुशंसा की है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उप-विधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमण्डल के काँठो पंचायत स्थित बाबा महेश्वरनाथ मंदिर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “बाबा महेश्वरनाथ मंदिर काँठो मंदिर, ग्राम-काँठो पो0-शंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर न्यास समिति होगी” न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “बाबा महेश्वरनाथ मंदिर काँठो, ग्राम-काँठो पो0-शंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर न्यास समिति होगी” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- (1) श्रीमती मीरा सिंह पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष पे0 स्व0 मुनेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम+पो0-चपरॉव कोठी, थाना-सिमरीबख्तियारपुर, सहरसा — अध्यक्ष
- (2) श्री कृत नारायण सिंह पे0 स्व0 चमक राय, ग्राम+पो0-शंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा — उपाध्यक्ष
- (3) श्री सत्यनारायण सिंह पे0 स्व0 शिवशंकर सिंह, ग्राम+पो0-शंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा — कोषाध्यक्ष
- (4) श्री हरि मोहन झा पे0 स्व0 बैद्यनाथ झा, ग्राम+पो0-कॉठो, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा — सदस्य
- (5) श्री नरेश कुमार सिंह, पिता श्री श्रीराम सिंह, ग्राम+पो0-शंकरपुर, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा — सदस्य
- (6) श्री ललित झा, पिता श्री शिवजी झा, ग्राम+पो0-कॉठो, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा — सदस्य
- (7) श्री परशुराम पासवान पे0 स्व0 जलपुरी पासवान, ग्राम-कॉठो टोलवा, सिंगरौली, पो0-चपरॉव, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा — सदस्य
- (8) श्री शिवनंदन पोद्दार पे0 स्व0 रोमोतार पोद्दार, ग्राम+पो0-कॉठो टोलवा, सिंगरौली, पो0-चपरॉव, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा — सदस्य
- (9) श्री रामचन्द्र मुखिया पिता श्री बुच्चो मुखिया, ग्राम-अंधरी, पो0-चपरॉव, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा — सदस्य
- (10) श्री जितेन्द्र सिंह पे0 स्व0 योगन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम-कॉठो टोलवा, पो0-शंकर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा — सदस्य
- (11) श्री रामाधार सिंह पिता श्री रामरतन सिंह, ग्राम-सिसौनी, पो0-बलवाहाट, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा — सदस्य

इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 10.10.2013 से पाँच वर्षों का होगा। एक वर्ष के बाद इसकी कार्यो की समीक्षा की जायेगी।

विश्वासभाजन,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 84-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>